



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

म० 240] नई दिल्ली, मंगलवार, अश्विन 24, 1973/अश्विन 24, 1895

No. 240] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 16, 1973/ASVINA 24, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October 1973

PRIZE INCENTIVE SCHEME FOR HOLDERS OF POST OFFICE SAVINGS BANK ACCOUNTS

No. F.3(11)-NS/72.—1. From the year 1973-74 onwards, account holders in the Post Office Savings Bank having a balance (which qualify for interest in any month of the year) of not less than Rs. 200 throughout the financial year (1st April to 31st March following) will be eligible for participation in the Draw to be held on the dates to be determined by the Government of India. There will be only one Draw in a year. Lots will be drawn under the supervision of the Government of India and the following prizes will be awarded:—

1 First prize of Rs. 2,50,000	Rs. 2,50,000
5 Second prizes of Rs. 1,00,000	Rs. 5,00,000
10 Third prizes of Rs. 50,000	Rs. 5,00,000
100 Fourth prizes of Rs. 10,000	Rs. 10,00,000
1000 Fifth prizes of Rs. 500	Rs. 5,00,000
1000 Sixth prizes of Rs. 50	Rs. 5,00,000
Total amount of prize money in each annual draw	Rs. 32,50,000

2. Eligibility—Persons having Single or Joint Accounts or Accounts in the name of minors are eligible to participate in this Scheme. Public Accounts Security Deposit Accounts and Provident Fund Accounts in Post Office Savings Bank will not be

eligible for participation in this scheme. In Accounts in which a part of the amount has been 'blocked' as a 'blocked' deposit for two or three years, the 'blocked' amount shall be treated as a deposit to determine the minimum balance in the Account.

Accounts which have not been operated upon during the past 6 years and have become "silent accounts" within the meaning of Rule 15 of the Post Office Savings Bank Rules, 1965, shall not be eligible for inclusion in the Draw.

No account holder will be eligible for more than one prize in each Draw.

3. *Code Number for Eligible Accounts*—A Code Number for each account eligible to participate in the Draw will be given by the Post Office at which the account stands. The Code Numbers of all such accounts standing at a Head Post Office and its Sub and Branch Post Offices under its jurisdiction shall be displayed at the post office as soon as possible after the 31st March and atleast one month before the date of the Draw.

4. *Income-Tax*—Prize money will be treated as income as defined in Clause (ix) in Section 2(24) of the Income Tax Act, 1961 and will be liable to income tax in accordance with the law for the time being inforce. In respect of prize money exceeding Rs. 1,000, deduction of income-tax will be made at source before payment.

5. *Payment of Prize-Money*—The holder of a prize-winning account may present his claim together with his pass book, at any time after the date of the relative Draw, at the Post Office where the account stands along with an application in the form prescribed for this purpose by the P&T Department. A receipt will be given by the Post Office therefor. After the claim has been admitted, payment shall be made by the respective Post Office where the account stands by cheque in respect of payments of Rs. 500 and higher denominations and in cash in respect of payments of Rs. 50. The claim must be preferred within six months from the date of draw. Any claim received thereafter shall not be accepted.

6. *Publication of Code Numbers of Prize-Winning Accounts*—The particulars of the prize-winning accounts will be published in the Gazette of India and the Press, as soon as possible, after the date of the relative Draw. The lists of prize winning Code Numbers shall be displayed at the Post Offices and copies thereof can also be obtained from the National Savings Commissioner, Post Box No. 96, Nagpur, one month after the date of the draw by sending a self-addressed and stamped envelope.

7. *Special Provisions*—In respect of the financial year 1973-74, the eligible accounts which have a minimum balance of not less than Rs. 200 throughout the period between the 1st November, 1973 and 31st March 1974 shall qualify for participation in the first Draw to be held in July, 1974.

By Order, of the President

B MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय
(ग्रामिक कार्य विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1973

डाकघर बचत बैंक खाता धारियों के लिये पुरस्कार योजना

संख्या 3(11)-एन० एस्०/72--1973-74 में, डाकघर बचत बैंक के जित खाता धारियों के खाते में पूरे वित्तीय वर्ष भर (पहली अप्रैल से 31 मार्च तक) कम से कम 200 रु० की राशि जमा रहे, वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित तारीखों को निकाली जाने वाली सादरी में भाग

लेने के हकदार होंगे। वर्ष में केवल एक बार लाटरी निकाली जायेगी। यह लाटरी, भारत सरकार की देखरेख में निकाली जायगी और इसमें निम्नलिखित पुरस्कार दिये जायेंगे :—

2,50,000 रुपये का पहला पुरस्कार—1	2,50,000 रु०
1,00,000 रुपये का दूसरा पुरस्कार—5	5,00,000 रु०
50,000 रुपये का तीसरा पुरस्कार—10	5,00,000 रु०
10,000 रुपये का चौथा पुरस्कार—100	10,00,000 रु०
500 रुपये का पाँचवाँ पुरस्कार—1000	5,00,000 रु०
50 रुपये का छठा पुरस्कार—10,000	5,00,000 रु०

प्रत्येक वर्ष निकाली जाने वाली लाटरी के पुरस्कारों की

कुल रकम

32,50,000 रुपये

2. **पात्रता** :—जिन व्यक्तियों का एकल अथवा संयुक्त खाता हो, अथवा जिनके खाते नाबालिगों के नाम से हों, वे सब इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे। डाकघर बचत बैंक में खोले गये सार्वजनिक खाते, प्रतिभूति जमा खाते तथा भविष्य निधि खाते इस योजना में शामिल किये जाने के पात्र नहीं होंगे। जिन खातों की आंशिक राशि, दो अथवा तीन वर्षों के लिए जमा के रूप में बन्द कर दी गई हो, उन खातों की शेष न्यूनतम जमा राशि के निर्धारण के प्रयोजन के लिए जमा के रूप में बन्द राशि को खाते की जमा रकम माना जायगा।

पिछले छः वर्षों में जिन खातों का संचालन नहीं किया गया है और जो डाकघर बचत बैंक नियमावली 1965 के नियम 15 के अर्थ के अन्तर्गत निष्क्रिय हो चुके हैं वे इस लाटरी में शामिल किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

कोई खाताधारी प्रत्येक लाटरी में एक से अधिक पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा।

3. **पात्र खातों की कोड संख्या** :—जिस डाकघर में खाता खोला गया हो वह डाकघर ऐसे प्रत्येक खाते के लिए एक कोड संख्या देगा जो लाटरी में शामिल किये जाने का पात्र होगा। किसी मुख्य डाकघर में तथा उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उसके उप-डाकघरों तथा शाखा डाकघरों में खोले गये इस प्रकार के सभी खातों की कोई संख्या की सूची—31 मार्च के बाद यथा शीघ्र किन्तु लाटरी निकाले जाने की तारीख से कम से कम एक महीना पहले डाकघरों में प्रदर्शित कर दी जायगी।

4. **आयकर** :—पुरस्कार की राशि को, आयकर अधिनियम 1961 के खण्ड 2(24) की धारा (IX) में परिभाषित आय माना जायगा और उस पर उस समय लागू कानून के अनुसार आयकर लगेगा। एक हजार रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि के सम्बन्ध में आयकर की कटौती उक्त राशि की अदायगी से पूर्व स्रोत पर ही कर ली जायगी।

5. **पुरस्कार की राशि की अदायगी** :—पुरस्कार जीतने वाले खाताधारी लाटरी निकल जाने की तारीख के बाद किसी भी समय पुरस्कार की रकम के लिए अपनी पास बुक के साथ, डाक-तार विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन-प्रपत्र पर उस डाकघर में अपना दावापेश कर सकता है, जहाँ पर खाता खोला गया हो। इसके लिए डाकघर एक रसीद देगा। दावा स्वीकार किये जाने के बाद, वह सम्बन्ध डाकघर जहाँ खाता खोला गया हो, 500 रुपये तथा उससे अधिक राशियों के पुरस्कारों की अदायगी

बैंकों द्वारा और 50 रुपये के पुरस्कारों की प्रदायगियां नकद करेगा। दावा, लाटरी निकलने की तारीख से निश्चय ही छः महीनों के अन्दर पेश कर दिया जाना चाहिये। इसके बाद प्राप्त कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायगा।

6. पुरस्कार जीतने वाले खातों की कोड संख्या का प्रकाशन.—लाटरी निकल जाने की तारीख के बाद, पुरस्कार जीतने वाले खातों का विवरण, यथा शीघ्र भारत के राजपत्र तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जायेगा। पुरस्कार जीतने वाले खातों की कोड संख्या की सूची डाकघरों में भी प्रदर्शित कर दी जायगी और यह सूची लाटरी निकलने की तारीख के एक महीने बाद राष्ट्रीय दलित-युक्त, पोस्ट बाक्स संख्या 96, नागपुर से उनके नाम एक लिफाफा भेजकर मंगाई जा सकती है जिस पर भेजने वाले का पता लिखा हो और डाक टिकट लगी हो।

7. विशेष उपबंध—जहाँ तक वित्तीय वर्ष 1973-74 का सम्बन्ध है, ऐसे खाते, जिनमें पहली नवम्बर 1973 और 31 मार्च, 1974 के बीच की पूरी अवधि में बराबर बम से बम 200 रुपये की राशि जमा रहेगी, जुलाई 1974 में निकाली जाने वाली प्रथम लाटरी में शामिल बिये जाने के पात्र होंगे।

राष्ट्रपति के आदेश से,

बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव।